



### सिटी ने कम्युनिटी को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइववे कार्य को मज़बूत बनाया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (27 अप्रैल, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने अधिक सुरक्षित घर और अधिक सुरक्षित कम्युनिटी बनाने में मदद के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर ड्राइववे का फर्श बनाने का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नियम कड़े कर दिए हैं।

इस वर्ष नया नियम है कि कॉन्ट्रैक्टर्स और ड्राइववे सीलर्स के लिए, लाइसेंस लेने से पहले सिटी की ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी करना आवश्यक है। अब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए सिक्योरिटी जमा करना भी जरूरी है। लाइसेंस जारी करने और/या नवीनीकरण के लिए ये पूर्व-आवश्यक नियम, ड्राइववे पर अवैध निर्माण को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण स्टेप हैं।

जब प्रोविंसियल स्टे-एट-होम ऑर्डर समाप्त हो जाएगा, तो बाइ-लॉ एंड एन्फोर्समेंट सर्विसिज (By-law and Enforcement Services) का स्टाफ, उन ड्राइववे इंस्टॉलेशनस या विस्तारों की जांच दुबारा शुरू करेगा, जो सिटी के भिन्न [बाइ-लॉज \(by-laws\)](#) का पालन नहीं कर रहे हैं।

जो निवासी पार्किंग वाली जगह को बढ़ाने के लिए अपने ड्राइववे को चौड़ा करने, फर्श पर और पत्थर लगवाने या अपने ड्राइववे को रीसील करने की योजना बना रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे निम्नलिखित सुझावों को ध्यान में रखें:

- देखें कि क्या कॉन्ट्रैक्टर के पास सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का लाइसेंस है। लाइसेंसशुदा कॉन्ट्रैक्टर्स की सूची [ऑनलाइन \(online\)](#) उपलब्ध है।
- डी.आई.वाई. (DIY) प्रोजेक्ट्स के लिए, यह पुष्टि करने के लिए सिटी से पूछें कि ड्राइववे की अनुमति प्राप्त अधिकतम चौड़ाई कितनी है और कर्ब कट परमिट आवश्यक है या नहीं।
- ड्राइववे के फर्श का काम करने के दौरान साइट पर, कुशल व्यक्ति मौजूद होने आवश्यक हैं।

कॉन्ट्रैक्टर्स और निवासियों, दोनों की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्माण, सिटी के बाइ-लॉज के मुताबक है और वैध है।

अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/drivewaypaving](http://www.brampton.ca/drivewaypaving) पर जाएं।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)